



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1938 (श0)

(सं0 पटना 969) पटना, शुक्रवार, 11 नवम्बर 2016

मुख्य अभियंता-2 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना

कार्यालय-आदेश
4 नवम्बर 2016

सं0 ग्रा0का0वि0/स्था0-12/16-3910—जल संसाधन विभाग बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.02.02, पत्रांक-1117 दिनांक 07.05.05, पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.02 एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, **सहरसा** के पत्रांक-796 अनु0 दिनांक 26.08.2016 द्वारा प्राप्त श्री बबलु साह, पिता-स्व0 नथुनी साह, कार्यालय परिचारी, ग्राम+पो0-बरियाही बाजार, थाना-बनगांव जिला, सहरसा, पिन कोड- 852212 का आवेदन/अभिलेख, पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र, अनियोजित प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र एवं इन्टर का अंक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों के जॉचोंपरान्त जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति सहरसा के पत्रांक-66-26/2011-966/स्था0, दिनांक 18.08.2016 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्त करने के लिए अनुशासित के आलोक में श्री बबलु साह, पिता-स्व0 नथुनी साह को अनुकम्पा के आधार पर रिक्त पत्राचार लिपिक के पद के विरुद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड-पे 1900/- में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सहरसा में रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है। श्री बबलु साह को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सहरसा में पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में समर्पित करें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

2. स्व0 नथुनी साह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री बबलु साह पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असेनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में देना होगा।

5. अगर श्री बबलु साह की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा।

6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देंगे।

7. श्री बबलु साह की शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन एवं परीक्षाफल की सत्यता की जांच सहायक सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक-नि0-6238 दिनांक 15.10.2016 एवं प्रभारी पदाधिकारी (परीक्षा) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उ0मा0) पटना के पत्रांक-BSEB/SS/Ex/Pat/751/D16 दिनांक 21.10.2016 द्वारा करा लिया गया है। योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्त पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।

9. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

10. उन्हें छः माह के अन्दर टंकण एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज नहीं लेने एवं देने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

12. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता-2 ।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।**
बिहार गजट (असाधारण) 969-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>